

COMSYN

Manufacturer & Exporter of FIBC, PP Fabric, Woven Sacks & Tarpaulin

COMSYN/BSE/2020-21

Date: 15th February, 2021

Online Filing at: www.listing.bseindia.com

To,
The General Manager,
DCS-CRD
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Towers
Dalal Street Mumbai- 400001(MH)

BSE Scrip ID: COMSYN BSE Scrip Code: 539986

Sub: Submission of Press Clipping Related to extract of Standalone and Consolidated Un-Audited Quarterly Financial Results for the Quarter/Nine Months ended on 31st December, 2020.

Dear Sir/Madam,


Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A(A) and in compliance of Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 regarding extract of Standalone and Consolidated Un-Audited Quarterly Financial Results for the Quarter/Nine Months ended on 31st December, 2020 was approved in 8/2020-21 Meeting of the Board of Directors held on Saturday, 13th February, 2021 at 12.15 P.M. at the Registered Office of the Company.

We herewith enclose the newspaper advertisement published on 14.02.2021 in Free Press Journal English edition and Chotha Sansar Hindi edition.

You are requested to please take on record our above said information for your reference and record.

Thanking you
Yours Faithfully,

For, **COMMERCIAL SYN BAGS LTD.**


SANDEEP PATEL
COMPANY SECRETARY &
COMPLIANCE OFFICER
Encl. a/a



Commercial Syn Bags Limited

CIN : L25202MP1984PLC002669

Registered Office : Commercial House, 3-4, Jaora Compound, M.Y.H. Road, INDORE - 452 001, M.P. INDIA

Ph. +91 731 2704007, 4270525 Fax: +91 731 2704100 E-mail: info@comsynbags.com

Iran state TV: fuel tanker explodes at Afghan-Iran border

TEHRAN: A fuel tanker exploded Saturday at the Islam Qaleh crossing in Afghanistan's western Herat province on the Iranian border, Iranian state TV reported. Several trucks were engulfed in flames after the explosion, the report said. It wasn't immediately clear what caused the blast and there were no immediate reports of casualties. Fire spread to the Doharoon customs facilities on the Iran side and first responders, including the fire department, the Iranian army and border forces were assisting in extinguishing the blaze. Trucks carrying natural gas and fuel were directed to leave the scene.

Oxford University to test Covid-19 vax safety in kids

AGENCIES
London

The University of Oxford has launched the first study to assess the safety and immune responses of its Covid-19 vaccine in children and young adults with first vaccinations expected during this month.

This trial will assess if children and young adults aged 6-17 years develop a good immune response with the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine.

"While most children are relatively unaffected by coronavirus and are unlikely to become unwell with the infection, it is important to establish the safety and immune response to the vaccine in children and young people as some children may benefit from vaccination," Andrew Pollard, Professor, and Chief Investi-



gator on the Oxford vaccine trial, said in a statement. "These new trials will extend our understanding of control of SARS-CoV2 to younger age groups."

The study builds on previous trials of the vaccine, which have shown that it is safe, produces strong immune system responses and has high efficacy in adults.

This new trial, a single-blind, randomised phase II trial, will involve 300 volunteers, with up to 240 of these volunteers receiving the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine,

the University of Oxford said on Friday.

The remainder will receive a control meningitis vaccine, which has been shown to be safe in children but is expected to produce similar reactions, such as a sore arm.

"The Covid-19 pandemic has had a profound negative impact on the education, social development and emotional well-being of children and adolescents, beyond illness and rare severe disease presentations," said Rinn Song, Paediatrician and Clinician-Scientist, Oxford Vaccine Group.

"It is therefore important to collect data on the safety and the immune response to our coronavirus vaccine in these age groups, so that they could potentially benefit from inclusion in vaccination programs in the near future."



A member of the security forces walks past wreckage at the scene of a bombing in Mogadishu, Somalia on Saturday.

6 injured in explosion near presidential palace in Somalia's Mogadishu: Report

AGENCIES
Mogadishu

At least six people suffered injuries after an explosion close to the presidential palace in Somalia's Mogadishu on Saturday morning, Sputnik reported citing government spokesperson.

The blast hit the Sayidka junction on the main road towards the palace. The explosion occurred at 9 am (local time) and was followed by gunfire.

According to the government spokesman, the security forces had thwarted a "potentially massive suicide attack" near the Sayidka junction after the perpetrator ignored orders to stop at the Dabka checkpoint.

"Soldiers fired at the car before the blast went off.

The damage was minimized, 6 people injured," Moalimu tweeted, adding that the attacker was confirmed dead.

Local media outlets reported that seven people were wounded and the death toll is likely to increase.

Mogadishu is regularly targeted with attacks by the Al-Qaeda linked Al Shabaab terror group.

US continues to seek extradition of WikiLeaks founder Julian Assange

AGENCIES
Washington DC

The US Justice Department is continuing efforts to seek the extradition of WikiLeaks founder Julian Assange to the United States, spokesperson Nicole Navas told Sputnik.

"I can confirm we are continuing our efforts to seek the extradition of Julian Assange," Navas said on Friday when asked if the Justice Department appealed a British judge's ruling against extraditing Assange.

In January, UK district judge Vanessa Baraitser ruled not to extradite Assange to the United States, citing health reasons and the risk of suicide in the US prison system, but did not release him from the Belmarsh high-security prison where he remains in detention.

Assange was initially convicted by the Obama administration for conspiring to hack classified information on a government computer.

In 2019, charges were expanded to include espionage, punishable by a total of 175 years in prison. Assange is believed to be responsible for the largest leak of classified information in history on WikiLeaks in 2010 that shed light on war crimes committed by US troops in Iraq and Afghanistan.

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर (म.प्र.)
(श्री पवन जैन (I.A.S) अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक-जी-11)
प्रकरण क्रमांक:0165/बी-121/2020-21
इन्दौर दिनांक 29/01/2021
क्रमांक/44/अ.क.री/2021
विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु

प्रति,
1. श्री राकेश कुमार परमार पिता श्री प्रेमनारायण परमार
2. श्रीमती पुष्पा परमार पति श्री राकेश कुमार परमार

दोनों का पता- प्रकोष्ठ क्रमांक 506, पांचवी मंजिल, भूखंड क्रमांक ए-11, श्री स्वामि हेरिटेज, शांतिनगर सिटी, ग्राम जाख्या, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.) एवं बार्ड नं.- 02, कुडाना रोड, बड़े हनुमान मंदिर के पास सांवेर जिला इन्दौर (म.प्र.)

...अनावेदकान विषय- प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय अस्तिधियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बकाया एक वस्तु हेतु प्रस्तुत प्रकरण में उपस्थिति सावर रूपमा।

प्राचीन दीवान हाउसिंग फार्मस कॉर्पोरेशन लि. तर्फे प्राधिकृत अधिकारी पता- डीएचएफएल 503-505, फ्लोर एरियन हाईस्ट, स्कीम नं.- 54, पीयू-3, विजयनगर, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा निवेदन किया कि बंधक प्रकोष्ठ क्रमांक 506, पांचवी मंजिल, भूखंड क्रमांक ए-11, श्री स्वामि हेरिटेज शांतिनगर सिटी, ग्राम जाख्या, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.) पर बकाया ऋण राशि का चुकाना आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूतिकरण का कर्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय अस्तिधियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूतिकरण के रूप में रबी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे। अतः इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रकरण की सुनवाई न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इन्दौर, कक्ष क्रमांक जी-11 में दिनांक 15/02/2021 को दोपहर 02:30 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर

PANCHSHEEL ORGANICS LIMITED
CIN: L24232MP1989PLC005390
Regd. Office: B-6 & B-7 Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Indore, (M.P.)-452015
Ph.: 0731-2721709, Fax: 91-22063929, Website: www.panchsheelorganics.com

NOTICE
DECLARATION OF INTERIM DIVIDEND AND RECORD DATE

The Company hereby informs that the Board of Directors has at its Meeting held on Saturday, February 13, 2021, declared the Interim Dividend of Rs. 1.5 per Equity shares of Rs. 10 each of the Company. The Interim Dividend will be paid on Wednesday, March 3, 2021 to the Equity shareholders of the Company, whose name appear in the Registered or the Members of the Company or in the records of Depositories as beneficial Owner of the shares as on Tuesday, February 23, 2021 being the record date fixed for the purpose.

The said notice may be accessed on the Company's website at www.panchsheelorganics.com and also on stock exchanges website at www.bseindia.com.

Place: Mumbai
Date: 13.02.2021

By Order of the Board
Sd/-
Mahendra A. Turakhia
Managing Director

PANCHSHEEL ORGANICS LIMITED
CIN NO: L24232MP1989PLC005390
Regd. Office: B-6-B7, Sector C, Sanwer Road, Industrial Estate, Indore, M.P. 452015
Website: www.panchsheelorganics.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

S. No.	Particulars	Three Months Ended			Year to date figures		
		31/12/2020	30/09/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/03/2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	1,216.54	1,546.35	1,230.49	3,766.22	3,853.34	5,068.58
2	Profit/(Loss) for the period from continuing operations Other Comprehensive Income	146.43	164.62	133.47	409.35	404.06	528.95
3	Item that will not be reclassified to Profit or Loss	4.76	4.76	2.74	14.28	8.22	19.02
4	Income Tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss	(1.33)	(1.33)	(0.76)	(3.98)	(2.29)	(5.29)
5	Total Comprehensive Income for the period	149.86	168.05	135.45	419.65	409.99	542.68
6	Paid-up equity share capital (Face value Rs. 10/- per share)	501.54	501.54	501.54	501.54	501.54	501.54
7	Earnings per share (In Rupees) (of Rs. 10/- each) (Not Annualized)						
a)	Basic:	2.99	3.35	2.70	8.37	8.17	10.82
b)	Diluted:	2.99	3.35	2.70	8.37	8.17	10.82

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com or at company website at www.panchsheelorganics.com

By order of the Board
For Panchsheel Organics limited
Sd/- Mahendra Turakhia
Chairman & Managing Director
DIN: 00068222

Place: Mumbai
Date: 13.02.2021

COMMERCIAL SYN BAGS LIMITED
CIN : L25202MP1984PLC002669
Registered office: Commercial House, 3-4 Jaora Compound, M.Y.H. Road, Indore-452001 (M.P.)
Contact No.: 0731-4279525, Email Id: investors@comsyn.com, Website: www.comsyn.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER, 2020

SR. No.	Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED			
		Quarter Ended	Year to Date	Quarter Ended	Quarter Ended	Year to Date	Quarter Ended
		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
1	Total Income from Operations	6206.31	14989.79	4974.22	6203.19	14986.67	4974.22
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	306.32	913.25	398.30	304.86	911.59	398.30
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	306.32	913.25	398.30	304.86	911.59	398.30
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	262.28	806.69	350.15	250.73	805.03	350.15
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive income (after tax)	262.28	806.69	350.15	250.73	805.03	350.15
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/-)	1181.74	1181.74	1181.74	1181.74	1181.74	1181.74
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
1. Basic:		2.14	6.83	2.96	2.12	6.81	2.96
2. Diluted:		2.14	6.83	2.96	2.12	6.81	2.96

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the company website www.comsyn.com

2. The above Audited Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13th February, 2020.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
(ANIL CHOUDHARY)
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
DIN : 00017913

Place : Indore (M.P.)
Date: 13.02.2021

BERYL DRUGS LIMITED
Regd. Off.: Ground Floor, 133, Kanchan Bagh, Indore-452001 (M.P.) .Tel.:0731-2517677
Email: beryl drugs25@yahoo.com CIN : L02423MP1993PLC007840

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / YEAR ENDED 31st Dec 2020 (Rs. In 000)

Particulars	QUARTER ENDING / Current Year Ending (31-12-2020)	Corresponding 3 month ended in previous year (31-12-2019)	Year to date figures/ Previous Year ended (31-03-2020)
	1 Total Revenue from operations (net)	20967	23644
2 Net profit (loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-2689	1975	1579
3 Net profit (loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-2689	1975	1579
4 Net profit (loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1703	924	479
5 Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (loss) for the period after tax and other Comprehensive Income(after tax)]	-2511	880	973
6 Paid-up equity share capital	50717	50717	50717
7 Reserves excluding revaluation reserve	26615	21295	25318
8 Earnings per share after extraordinary items			
Basic earnings per share after extraordinary items	-0.340	0.180	0.09
Diluted earnings per share after extraordinary items	-0.340	0.180	0.09

NOTES : The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Yearly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on Company's website (www.beryl drugs.com)

For & on behalf of the Board
BERYL DRUGS LTD.
Sd/-
Sanjay Sethi (Managing Director)
DIN : 00090277

Place : Indore
Date : 12/02/2021

Pakistan ramps up its deception game as FATF deadline approaches

AGENCIES
Paris

As the deadline for Financial Action Task Force (FATF) listing approaches Pakistan has once again ramped up its deception games to convince the financial watchdog that it has tightened anti-money laundering and counter financing of terrorism (AML/CFT) regimes.

FATF will be deciding the fate of Pakistan regarding the listing in the last week of February.

In a special report of the Center of Political and Foreign Affairs on 'Anti-Terrorism Task Force (CPFA)', Ronald Duchemin wrote that Pakistan is pushing a propaganda effort to convince the FATF to take Islamabad out of the grey list and not push it into the black list.

However, the facts on the ground merit Pakistan being 'black-listed' for failing to deliver on its high-level political commitments to FATF, wrote Duchemin.

"Worse, Pakistan has been deceiving the Task Force by pretending to take action against internationally designated terrorist groups and their financial networks but only on paper. In practice, these terror groups continue to function openly and are collecting funds publicly," he added.

FATF

In June 2017, FATF referred Pakistan to the Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) and sought a report to address concerns that Pakistan was not fully complying with curbs against terrorist entities designated under the UNSC 1267 committee. This was followed in February 2018 with the US, along with its close European allies, proposing that Pakistan be placed on the FATF 'grey list' for failing to comply with FATF guidelines on AML/CFT.

FATF placed Pakistan in the 'grey list' in June 2018. Since that time, Pakistan has adopted a three-pronged approach to get out of the FATF watchlist, and prevent itself from sliding into the 'black list'.

BIOFIL CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LIMITED
CIN: L24233MP1985PLC002709
Regd. Office : 11/12, Sector-E, Sanwer Road Industrial Area, Indore-452015 (M.P.)
Tel.: 0731-2426718, 2723016-17 | Email: bcplcompliance@gmail.com | Website: www.biofilgroup.net

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER/NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER 2020
(Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	Corresponding 03 Months ended in Previous Year	Year to date
		31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income / Revenue From Operations	321.42	1284.06	2231.59
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	51.25	22.94	165.63
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	51.25	22.94	165.63
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	51.25	22.94	165.63
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period after Tax and Other Comprehensive Income (OCI) after tax)	51.25	22.94	165.63
6	Paid up Equity Share Capital	1627.38	1627.38	1627.38
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	Basic: (in Rs.)	0.31	0.14	1.02
	Diluted: (in Rs.)	0.31	0.14	1.02

NOTES : The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Month ended December 31, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Nine Month ended December 31, 2020 is available on the website of the Company i.e. www.biofilgroup.net and on Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Biofil Chemicals and Pharmaceuticals Limited
Sd/-
Ramesh Shah
(Managing Director) DIN : 00028819

Date : 12th February, 2021
Place : Indore

SIMRAN FARMS LIMITED
CIN: L01222MP1984PLC002627
Regd. Office: 1-B, Vikas Rekha Complex, Khatiwala Tank, Tower Square, Indore (M.P.) 452001
Phone: 0731-4255900, Fax: 0731-4255949, Website: www.simranfarms.com, Email: compliance@simranfarms.com

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2020

Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED		
	Quarter Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Nine Months Ended
	31-Dec-2020 (Reviewed)	31-Dec-2019 (Reviewed)	31-Dec-2020 (Reviewed)	31-Dec-2019 (Reviewed)	31-Dec-2020 (Reviewed)
Total income from operations (net)	11177.20	7773.15	25187.97	11177.20	7773.15
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1509.19	-209.54	3087.30	1519.06	-214.63
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1509.19	-209.54	3087.30	1519.06	-214.63
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	880.20	-207.52	1847.80	887.51	-211.44
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	880.20	-207.52	1847.80	886.25	-210.77
Paid Up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Earnings Per Share (Face Value of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
Basic : (in Rs.)	23.21	-5.47	48.73	23.37	-5.56
Diluted: (in Rs.)	23.21	-5.47	48.73	23.37	-5.56

Note: The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for quarter & nine months ended 31st December, 2020 filed with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter & Nine Months ended December 31, 2020 are available on the website of the Company i.e. www.simranfarms.com and on Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.

Place: Indore
Date : 13-Feb-2021

For Simran Farms Limited
H. S. Bhatia (Managing Director)
DIN: 00509426

एक नजर



विवेक को जगाने की पाठशाला है सत्संग-दीदी मां

अंजड़, (निप्र)। गान मोहिपुरा पुनर्वस स्थापन पर आयोजित नर्मदा पूजा कथा के दूसरे दिन दीदी मां अखिलेश्वरी देवी ने रोवाखण्ड से सात कल्पों का वर्णन करते हुए पृथ्वी का गौमाता के रूप में अक्षर श्रुति मार्कण्डेय जी की रक्षा करने का प्रसंग सुनाते हुए मां नर्मदा जी व गौमाता व सत्संग का महत्व बताते हुए कथा कि बुद्धि हमें विद्या से, लेकिन विवेक हमें सत्संग रूपा पाठशाला से ही प्राप्त होता है।

दीदी मां ने पौराणिक कथाओं के अनुसार आगे बताया कि नर्मदाजी ने बाद में कई हजारों साल तक भगवान शिव की तपस्या कर भगवान शंकर से कई वरदान प्राप्त किए थे। इसमें प्रलय में भी उनके अविनाशी रहने के साथ वहा पाए जाने वाले पाषाणों के शिखर होने का वरदान शामिल है। नर्मदा मैया ने भगवान शिव से धरती की एकमात्र पाप नाशनी होने का भी वरदान प्राप्त किया था। नर्मदा पूजा के अनुसार हनुमन्तलक्ष्मण धेनु में गंगा पत्रि है और सुरसेन ने सरस्वती लेकिन गाव से चाहे वन, नर्मदा सर्व पत्रि है। साथ ही वे भी बताया कि - 'यमुना का जल एक सप्ताह में, सरस्वती का तीन दिन में, गंगाजल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण मनुष्य को पवित्र कर देता है। आगे उन्होंने बताया कि गौ माता को मां के रूप में सेवा करके ही हम उसका महत्व जान पाएंगे उनकी सुरक्षा व संवर्धन करने के लिए हमें केवल करना नहीं होगा बल्कि हमें सब मिलकर करना भी होगा इसके लिए हम सभी को अधिक से अधिक परमात्मा का उपयोग करना होगा। साथ ही अन्य लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा, तभी गौमाता की पूर्ण सुरक्षा व संवर्धन संभव है। कथा के दौरान कई नार्मिक संस्करण भी आगे जिन्हें सुनकर श्रद्धालुओं की आँसू नम हो गईं तथा बीच बीच में गुरु मंत्रों ने सब का मन मोह लिया व महिलाएं आने आगे को थिरकने से नहीं रोके पाई। कथा के बाद मुख्य गजाननों ने जोड़े के साथ नर्मदा पूजा की समीक्षित आरती कर प्रार्थना की वितरण किया गया। कथा का श्रवण करने सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुजन पहुंच रहे हैं।



नगर परिषद ने घर-घर चलाया होम कम्पोस्टिंग अभियान

पलसद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पलसद को नंबर 1 पर लाने के लिए नगर परिषद पलसद द्वारा घरों में घर-घर जाकर होम कम्पोस्टिंग के बारे में अभियान चलाया गया और कम्पोस्ट बनाने की विधि बताई गई घर से निकले वाले गीले कचरे से घर पर ही खाद बनाने के बारे में बताया गया जिससे रक्बावियों ने घर से निकलने वाले गीले कचरे से होम कम्पोस्ट बनाने का प्रण लिया इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष रमा मारुले, मोहनलाल आलावा स्वच्छता नोडल अधिकारी मोना बावले स्वच्छता प्रमोटी संजय गोरी साईद दयाना स्पेशल मेडरे डिवाइल डूवे शामिल थे।

5 लोग मिले कोरोना संक्रमित

बड़वानी, (निप्र)। जिले में शुक्रवार देर शाम 5 लोग कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। जिसके चलते अब जिले में पाँचदिन लोगों का आइसोलेट 2937 तक पहुंच चुका है। हालांकि इनमें से 2881 लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं।

सुशासन अभियान के तहत दो लोगों पर एफआईआर

संधवा में अवैध कॉलोनी बनाकर प्लॉट बेचे

बड़वानी, (निप्र)। जिले में संचालित सुशासन अभियान के तहत संधवा में एसडीएम तपस्या परिहार के निर्देश पर पुलिस ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र मोतियानी एवं भूस्वामी उनकी पत्नी श्रीमती संगीता मोतियानी पर मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इन धाराओं में आरोपी को कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष के कारावास से या कम से कम 10 हजार रूपय के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह है प्रकरण के तथ्य - भूस्वामी द्वारा कस्बा संधवा पटवारी हल्का नं. 4 (नवीन हल्का नं. 11) में खलवाड़ी मोहल्ले के बाद शासकीय कॉलेज के पीछे कृषि भूमि पर उक्त कॉलोनी में छोटे-छोटे भूखंडों का



सड़क के किनारे खनिज के अवैध भण्डारण पर

जिला प्रशासन ने की कार्यवाही, 53 डंपर पकड़े

गुना, (निप्र)। जिले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में खनिज के अवैधन उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वाले खनिज माफियाओं के विरुद्ध सतत कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में आज नानाखेड़ी एवं ए.बी. रोड स्थित सड़क किनारे भसुआ के अवैध भण्डारण के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुना-बमोरी सुश्री अंकिता जैन द्वारा कार्यवाही की जाकर लगभग 53 डंपर अवैध भण्डारित भसुआ के जन्ती की कार्यवाही की गई। साथ ही भसुआ के अवैध भण्डारण करने वाले फिरोज खान, दिनेश साहू, श्रीनाथ ट्रेडर्स के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश जिला खनिज अधिकारी को मौके पर दिए गए।

छात्राओं ने वृद्धाश्रम में जाकर कायम की एक अनोखी मिसाल



गुना, (निप्र)। जिले के शासकीय महाविद्यालय की छात्राओं ने आज नानाखेड़ी स्थित वृद्धाश्रम में जाकर एक अनोखी मिसाल कायम की, जहां आज की युवा पीढ़ी 14 फरवरी वेलेटाईन-डे को प्रेम दिवस के रूप में मना रह है, वहीं इस

महाविद्यालय की छात्राओं ने स्वतः कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने आज नानाखेड़ी स्थित वृद्धाश्रम में जाकर एक अनोखी मिसाल कायम की, जहां आज की युवा पीढ़ी 14 फरवरी वेलेटाईन-डे को प्रेम दिवस के रूप में मना रह है, वहीं इस महाविद्यालय की छात्राओं ने स्वतः प्राचार्य डॉ. विनीता से इस अवसर पर वृद्धाश्रम जाने की इच्छा की। प्राचार्य ने भी उनकी इस इच्छा का सहृदय स्वागत किया। वृद्धाश्रम में छात्राओं ने प्रत्येक महिला व पुरुष से संपर्क कर उनके

कलेक्टर आज करेंगे आजीविका मेले का शुभारंभ

गुना, (निप्र)। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुना बमोरी सुश्री अंकिता जैन ने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से स्थानीय दशहरा मैदान में स्व सहायता समूह के उत्पादों की विक्री के लिए आजीविका मेला आयोजित किया जा रहा है। आजीविका मेले का औपचारिक शुभारंभ कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम 14 फरवरी 2021 को शाम 5:00 बजे करेंगे।

Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2019	
Total income from operations (net)	1.69	814.13	5.04	2520.59	3710.72
Net Profit/(Loss) for the period (before tax & Exceptional Items)	(58.70)	(64.99)	(82.19)	(204.10)	(1662.17)
Net Profit/(Loss) for the period (after tax & Exceptional Items)	(58.70)	(64.99)	(82.19)	(204.10)	(1662.17)
Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(58.70)	(64.99)	(82.19)	(204.10)	(1662.17)
Equity Share Capital (Face value of Rs.10/-)	1917	1917	1917	1917	1917
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) not annualised	(0.30)	(0.34)	(0.42)	(1.06)	(8.67)
Basic : Diluted :	(0.30) (0.34)	(0.34) (0.42)	(0.42) (1.06)	(8.67) (8.67)	(10.35) (10.35)

Date: 12.02.2021 Place: Dewas (M.P.)

नुकड़ नाटक से दिया मद्य निषेध एवं सड़क सुरक्षा का संदेश



बड़वानी, (निप्र)। मेले बाबू ने थाना थाया, हां था लिया। त्या थाया मेले बाबू ने, बर्गर। मेला सोना क्या कल लख है, मैं लो ख्याब देख लख हूं। इस तरह के हल्के-फुल्के और रोचक संवादों के साथ नुकड़ नाटक बलादेवस पर पहुंचता है, तो जीवन के लिए वैशकीमती संदेश देते हुए दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। यह नुकड़ नाटक एसीएन पीजी कॉलेज के स्वामी विवेकानंद कॉलेजर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा रनिवार को कॉलेज में प्रस्तुत किया गया। इसकी 2 प्रस्तुतियां हुईं और सैकड़ों युवाओं ने नाटक का आनंद लिया तथा शिक्षा ग्रहण की। उक्त आयोजन प्रचार्य डॉ. एनएल गुप्ता के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। नाटक लेखन प्रीति गुलवानिया ने किया। उन्होंने बताया कि दर्शकों को नाटक से जोड़ने के लिए हमने हल्की-फुल्की शुरुआत की। कुछ फिल्मी गीतों का भी उपयोग किया। हमारा मूल उद्देश्य युवाओं को सड़क पर सुरक्षित यात्रा करने, नशे के सेवन से दूर रहने तथा अपनी कॉलेज लाइफ को सार्थक से जीते हुए बेहतर जीवन बिताने का संदेश देना है। नाटक के निर्देशक डॉ. मधुसूदन चौबे ने कहा कि सभी कलाकारों ने अपनी गुणवत्ताओं के साथ न्याय किया तथा दर्शकों पर प्रभाव छोड़ा। आगे भी इसकी प्रस्तुतियां की जाएगी।



लोक कल्याण शिविर में 62 समस्याओं का निराकरण

गुना, (निप्र)। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी चांचोड़ा वीरेंद्र सिंह बघेल की पहल पर ग्राम पंचायत बांसाहेड़ाकला में जन समस्या निवारण-सह खंड स्तरीय लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुम्भराज तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों बांसाहेड़ा सेक्टर की ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की समस्या निवारण हेतु ब्लॉक स्तर के विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आयोजित शिविर में राजस्व, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, ग्रामीण विकास जनपद पंचायत, कृषि, उद्यानिकी, ग्रामीण यांत्रिकी, आदिम जाति कल्याण विभाग आदि से संबंधित प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं के 158 के लगभग आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 62 का मौके पर ही निराकरण किया गया। आवेदनों में विद्युत बिल समस्या, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, निर्माण, बीपीएल सूची में नाम जोड़े जाने, फोती नामांतरण, बंटवारे, फसल बीमा, नवीन हेण्डपंप लगाव जाने एवं खराब को सुधारने आदि की समस्या को अनुविभागीय अधिकारी चांचोड़ा श्री बघेल द्वारा सुना गया एवं निराकरण हेतु संबंधित विभाग से निराकरण योग्य आवेदनों का तत्काल निराकरण करवाया गया। तत्काल निराकरण योग्य नहीं होने वाली समस्याओं को संबंधित विभाग को प्रेषित कर एक सप्ताह में निराकरण किये जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही शिविर में जगदीश पुत्र धर्मा बंजारा निवासी खेडीकला को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में बांसाहेड़ा क्षेत्र के ग्रामीण उपस्थित रह। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के विभाग प्रमुख तहसीलदार मोहित जैन, सीईओ हरिनारायण शर्मा एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी एवं बांसाहेड़ा सेक्टर के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री, सरपंच आदि तथा विधायक प्रतिनिधि पिंटू बना, अनार सिंह जनपद सदस्य प्रतिनिधि, रतनसिंह पूर्व सरपंच, अजय सिंह, रामविलास, गजराज सिंह, भगवान सिंह, देवेन्द्र सिंह आदि उपस्थित रहे। शिविर की सम्पूर्ण व्यवस्था सरपंच श्रीमती पानाबाई, सचिव चित्रभान सिंह राजपूत एवं भूरसिंह बना ग्राम पंचायत रोजगार द्वारा की गई।

पुलिस अधीक्षक एवं पूर्व कलेक्टर ने लगवाई कोविड वैकसीन

नीमच, (निप्र)। जिले में फ्रंट लाइन वर्करों का कोविड टीकाकरण निरंतर चल रहा है। नीमच के महिला बस्ती गृह, डेडकास सोसायटी, सीआरपीएफ हॉस्पिटल में 3 केंद्रों पर नाद, सिंगोली, मनासा, गोरन, रामपुर में टीकाकरण सत्र आयोजित किये गये हैं। प्रतिदिन सत्रों के हिसाब से जिले से वैक्सिन कोल्ड चेन पॉइंट पर उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरे चरण में जिले के फ्रंट लाइन वर्कर जिनमें केंद्रीय पुलिस बल, राजस्व का समस्त अमला, नगर पालिका के कर्मचारी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को कोविड की सुरक्षित वैक्सिन के टीके अपना नम्वर आने पर लगाये जा रहे हैं। मेलेज के द्वारा लगभग दो एक दिन पूर्व टीकाकरण स्थल का पता व दिनांक से अगतत कसया जा रहा है पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा एवं पूर्व कलेक्टर जितेन्द्र सिंह राजे ने रनिवार को महिला बस्तीगृह नीमच में कोविड का सुरक्षित टीका लगवाया। जिले में 12 फरवरी तक 7 हजार 200 से अधिक हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर कोकोविड का सुरक्षित टीका लग चुका है। दूसरे चरण में पुलिस कर्मियों, नगर पालिका, राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों को निर्धारित टीकाकरण केंद्र पर कोविड का टीका लगवा रहे हैं।

COMMERCIAL SYN BAGS LIMITED						
CIN : L25202MP1984PLC002669						
Registered office : Commercial House, 3-4 Jaora Compound, M.Y.H. Road, Indore-452001 (M.P.)						
Contact No. : 0731-4279525, Email Id: investors@comsyn.com. Website : www.comsyn.com						
EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER, 2020						
(Rupees in Lakhs except EPS)						
SR. No.	Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 31.12.2020 Un-audited	Year to Date 31.12.2020 Un-audited	Quarter Ended 31.12.2019 Un-audited	Quarter Ended 31.12.2020 Un-audited	Year to Date 31.12.2019 Un-audited
1	Total Income from Operations	6206.31	14989.79	4974.22	6203.19	14986.67
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	306.32	913.25	398.30	304.86	911.59
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	306.32	913.25	398.30	304.86	911.59
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	252.28	806.69	350.15	250.73	805.03
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive Income (after tax))	252.28	806.69	350.15	250.73	805.03
6	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/-)	1181.74	1181.74	1181.74	1181.74	1181.74
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
1. Basic:		2.14	6.83	2.96	2.12	6.81
2. Diluted:		2.14	6.83	2.96	2.12	6.81

Notes : 1 The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the company website www.comsyn.com

2 The above Audited Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13th February, 2020.

For and on behalf of the Board of Directors

SD/- (ANIL CHOUHARY) CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR DIN : 00017913

Place : Indore (M.P.) Date: 13.02.2021

SIMRAN FARMS LIMITED

CIN: L01222MP1984PLC002627
Regd. Office: 1-B, Vikas Rekha Complex, Khatiwala Tank, Tower Square, Indore (M.P.) 452001
Phone: 0731-4255900, Fax: 0731-4255949, Website: www.simranfarms.com, Email: compliance@simranfarms.com

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2020

Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED		
	Quarter Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended	Nine Months Ended	
	31-Dec-2020 (Reviewed)	31-Dec-2019 (Reviewed)	31-Dec-2020 (Reviewed)	31-Dec-2019 (Reviewed)	
Total income from operations (net)	11177.20	7773.15	25187.97	11177.20	7773.15
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1509.19	-209.54	3087.30	1519.06	-214.63
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1509.19	-209.54	3087.30	1519.06	-214.63
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	880.20	-207.52	1847.80	887.51	-211.44
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	880.20	-207.52	1847.80	886.25	-210.77
Paid Up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Earnings Per Share (Face Value of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
Basic : (in Rs.)	23.21	-5.47	48.73	23.37	-5.56
Diluted: (in Rs.)	23.21	-5.47	48.73	23.37	-5.56

Note: The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for quarter & nine months ended 31st December, 2020 filed with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter & Nine Months ended December 31, 2020 are available on the website of the Company i.e. www.simranfarms.com and on Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.

Place: Indore Date: 13-Feb-2021

For Simran Farms Limited H. S. Bhatia (Managing Director) DIN: 00509426